

2
3190

रजिस्ट्री सं० डी० एस्० (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D.L. (N) 04/0007/2003—05



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 28] नई दिल्ली, अगस्त 31—सितम्बर 6, 2008, शनिवार/भाद्र 9—भाद्र 15, 1930
No. 28] NEW DELHI, AUGUST 31—SEPTEMBER 6, 2008, SATURDAY/BHADRA 9—BHADRA 15, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक् संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2008

आ.अ. 72.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि केंद्र विधान सभा, 2006 के साधारण निर्वाचन के लिए जो नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्विधान बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तंभ (4) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है:

और यतः, उक्त अभ्यर्थी ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायचित्य नहीं है:

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क क अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है:—

सारणी

क्रम सं.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निर्वाचन के कारण
1	2	3	4
1.	11-मन्नकडा	श्री ए. एम. मुनीर, अथिमन्निल हाउस, मेलमुरी, मलप्पुरम, केरल	कोर्ट भी लेखा दक्षिण नहीं किया

[सं. 76/केरल विधान सभा/2008]

अदेश में,

तपस कुमार, प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 28th August, 2008

O.N. 72.—Whereas, the Election Commission is satisfied that the contesting candidate specified in column (3) of the Table below in the General Election to the Kerala Legislative Assembly, 2006 held from the Constituency specified in the column (2) against his name has failed to lodge an account of his election expenses as mentioned in column (4) of the said Table, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And, whereas, the said candidate has either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice to him and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the person specified in column (3) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of 3 years from the date of this Order:—

TABLE

Sl. No.	Number and Name of Assembly Constituency	Name and Address of the contesting Candidate (S. Shri Smt.)	Reason for disqualification
1	2	3	4
1.	11-Mannakada	Sh. A. M. Muneer, Athimannil House, Melmuri, Malappuram, Kerala.	Accounts not lodged at all.

[No.76/KL-1/A/2008]

By Order,

TAPAS KUMAR, Principal Secy.